



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श०)
(सं० पटना 315) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2016

सं० 22/नि०सि० (मोति०)-08-03/2013/487—श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्ताव (आई० डी०-1847), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरुद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने, स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बावजूद सामग्री दुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप करने आदि कतिपय वित्तीय अनियमितता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं० 1777 दिनांक 27.11.14 द्वारा निर्लंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक 197 दिनांक 20.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

इस बीच श्री श्रीवास्तव दिनांक 31.01.16 को सेवानिवृत्त हो गये। अतः इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) में सम्परिवर्तन करने तथा दिनांक 31.01.16 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव को दिनांक 31.01.16 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा इनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 315-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>